



इश्यू की विशेषताएं

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी के अंतर्गत हितलाभ के साथ "ऑन टैप" आधार पर सममूल्य पर नकदी के लिए 10,000/- रुपए प्रत्येक के डिबेंचर की प्रकृति में प्रतिभूत, गैर-परिवर्तनीय, गैर-संचयी, मोचनीय, करयोग्य बॉन्ड का निजी प्लेसमेंट।

प्रतिभूति का नाम	पीएफसी कैपिटल गेन टैक्स एगजंप्शन बॉन्ड – श्रृंखला IX
रेटिंग	क्रिसिल द्वारा 'एएए/स्टेबल', आईसीआरए द्वारा 'एएए (स्टेबल)', और केयर द्वारा 'एएए/स्टेबल'
इश्यू का आकार	500 करोड़ रुपए + ओवरसब्सक्रिप्शन को रखने के लिए ग्रीन शू विकल्प
अंकित मूल्य	10,000 रुपए (दस हजार रुपए मात्र) प्रति बॉन्ड
इश्यू की कीमत	सममूल्य पर (10,000/- प्रति बॉन्ड)
कूपन दर	5.25% प्रति वर्ष
इश्यू की तिथि और समाप्ति तिथि	इश्यू की तिथि: 1 अप्रैल, 2025 इश्यू की अंतिम तिथि: 31 मार्च, 2026 (बैंकिंग समय समाप्त होने पर) या पीएफसी द्वारा अपने पूर्ण विवेक से तय की गई तिथि/समय पर
न्यूनतम आवेदन आकार और उसके बाद के गुणकों में	आवेदन न्यूनतम 20,000 रुपए (2 बॉन्ड) के लिए होना चाहिए तथा उसके बाद 10,000 रुपए (1 बॉन्ड) के गुणकों में होना चाहिए।
अधिकतम अनुप्रयोग आकार	इस वित्तीय वर्ष के दौरान 10,000/- रुपए प्रत्येक के 500 बॉन्ड (50,00,000/- रुपए)
इश्यू की विधि	निजी प्लेसमेंट आधार
सब्सक्रिप्शन की विधि	आवेदक सब्सक्रिप्शन राशि का प्रेषण इलेक्ट्रॉनिक मोड या 'पीएफसी कैपिटल गेन बॉन्ड' के पक्ष में जारी चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से कर सकते हैं।
आबंटन की मान्य तिथि	प्रत्येक माह का अंतिम दिन जिसमें सब्सक्रिप्शन राशि प्राप्त होती है और पीएफसी कैपिटल गेन संग्रह खाते में जमा होती है
कूपन भुगतान तिथि	31 मई, 2025 तक किए गए आवंटनों के संबंध में पीएफसी खाते में जमा की तारीख से पहला ब्याज 31 जुलाई, 2025 को लगाया जाएगा। बाद के आवंटन पर पहला ब्याज 31 जुलाई, 2026 को लगाया जाएगा। इसके बाद प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक मोचन एवं मोचन के साथ शेष राशि।
अवधि	आबंटन की अनुमानित तिथि से 5 वर्ष
मोचन की तिथि	आबंटन की मान्य तिथि से 5 वर्ष के अंत में
अंतरणीयता	गैर-हस्तांतरणीय, गैर-विपणन योग्य, गैर-नेगोशीएबल और किसी भी ऋण या अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में ऑफर नहीं किया जा सकता है
लिस्टिंग	बॉन्ड की अवधि के दौरान हस्तांतरणीय न होने के कारण बॉन्ड को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।
ट्रस्टी	बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड

टिप्पणी:

1. कंपनी बिना कोई कारण बताए या पूर्व सूचना दिए इश्यू खोलने/बंद करने/भुगतान की तिथियों को संशोधित (पूर्व-निर्धारित/स्थगित) करने का अपना एकमात्र और पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसे मामले में, निवेशकों/अरेंजर्स को कंपनी द्वारा संशोधित समय सारिणी के बारे में सूचित किया जाएगा। कंपनी बिना किसी सूचना के अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर आवंटन की कई मान्य तिथियां रखने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है। आवंटन की मान्य तिथि में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, कूपन भुगतान तिथियां और/या मोचन तिथियां भी कंपनी के एकमात्र और पूर्ण विवेक पर बदली जा सकती हैं।
2. पीएफसी कूपन दर को संशोधित करने और/या अपनी वेबसाइट पर सूचना देकर इश्यू को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बैंक में आवेदन जमा करने से पहले पीएफसी/अरेंजर्स से सलाह लें। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बॉन्ड पर ब्याज दर पीएफसी संग्रह खाते में सब्सक्रिप्शन राशि जमा करने की तिथि पर लागू होगी। जहां सब्सक्रिप्शन राशि 01.04.2025 को पीएफसी के संग्रह खाते में जमा की जाती है, वहां लागू दर 5.25% प्रति वर्ष है।
3. पीएफसी द्वारा प्रस्तुत किन्तु अस्वीकृत सभी आवेदनों को पीएफसी द्वारा बिना किसी ब्याज के आवेदक/संग्रह बैंकर को वापस कर दिया जाएगा।
4. 20,000/- रुपए (इसके बाद 10,000/- रुपए के गुणकों में) का आवेदन स्वीकार किया जाएगा, अंश रूप में प्राप्त कोई भी राशि निवेशक को बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।